







6	ACCOUNTS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduction to Accounting 2. Accounting terms 3. Accounting Assumptions and principles 4. Basis of accounting 5. Accounting equation 6. Rules of debit and credit 7. Source documents 8. Journal 9. Ledger 10 subsidiary books cash book 11. other subsidiary book 12 Gst 13. bank reconciliation statement 14 Trial balance 	
7	BS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evolution and Nature of business 2. Forms of business organization and formation of a company. 3. Public, private and Global enterprises 4 Business services 5 Emerging modes of business 	
8	GEOGRAPHY	<p><u>"India - Physical Environment"</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. India- Location 2. Structure and physiography 3. Drainage system 4. Climate 5. Natural vegetation <p><u>*Fundamentals of Physical Geography*</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geography as a discipline 2. The origin and evolution of the Earth 	
9	HISTORY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Writing and city life 2. An Empire across Three Continents 3. Nomadic Empires 	
10	POL SCIENCE	<p><u>Book-I political theory</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduction of political theory 2. Freedom 3. Equality 4. Justice 5. Rights <p><u>Book-II Indian constitution</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Constitution why and how 2. Rights in indian constitution 3. Election and representation 4. Executive 5. Legislature 	
11	PE	<ol style="list-style-type: none"> 1. changing trends and careers in Physical Education 2. Physical Fitness, Wellness and Lifestyle 	

		<u>Hornbill Prose</u> Portrait of a lady We're not afraid to die, if we can all be together Discovering Tut-the saga continues <u>Hornbill Poetry</u> Photograph Laburnum top Voice of the rain Childhood <u>Snapshots Prose</u> Summer of the beautiful white horse The Address	<i>Loobhi</i> <i>Rishi</i>
16	PSYCHOLOGY	1. What is Psychology ? 2. Methods of Psychological enquiry. 3. Human Development 4. sensory, attention and perceptual process. 5. Learning	<i>B</i>
17	Artificial Intelligence	Unit 1: Introduction to AI	<i>Loobhi</i>
18	PAT	UNIT 1: Role of physical education in child development UNIT 2: Props and equipment	<i>Khan</i> 25/11/23





Rishi
Coordinator

Shiraz
Vice-Principal

Loobhi
Principal

		<p>3.Fundamentals of Anatomy and Physiology in Sports</p> <p>4.Training and Doping in sports</p> <p>5.Fundamentals of Kinesiology and Biomechanics in sports</p>	AS
12	CS	<p>Chapter 1: Introduction to computer system and it's organization</p> <p>Chapter 2: Getting started with python programming</p> <p>Chapter 3: Decision making and looping statements in python</p> <p>Chapter 4: Data types in python</p> <p>Chapter 5:Python Libraries</p>	12
13	IP	<p>Chapter 1: Introduction to computer system and it's organization</p> <p>Chapter 2: Getting started with python programming</p> <p>Chapter 3: Decision making and looping statements in python</p> <p>Chapter 4: Data types in python</p> <p>Chapter 5:Python Libraries</p>	13
14	HINDI	<p>आरोह- पदय-कबीर का पहला पद, मीरा का पहला पद, परकी याद, चंपा काले काले अच्छर नही चीन्हती</p> <p>गद्य- नमकू का दारोगा, मियो नसीरुद्दीन, अपू के साथु डारै साल, विदाई संभाषण गलता नोहा</p> <p>वितान- भारतीय गाणिकाओं में बेजोड़ लला मंगेशकर</p> <p>अभिव्यक्ति- शेर माह्यम-पाठ-1 जनसंचार माह्यम पाठ-2 पत्रकारिता के विविध आयाम रचनात्मक लेखन, औपचारिक पत्र लेखन</p>	E
15	ENGLISH	<p>Comprehension passage</p> <p>Case based passage</p> <p>Note making and summarizing</p> <p><u>Writing Skills</u></p> <p>Poster making</p> <p>Speech writing</p> <p>Debate writing</p> <p>Classified Advertisements</p> <p><u>Grammar</u></p> <p>Tenses - gap filling</p> <p>Re-ordering sentences</p>	<p>15</p> <p>15</p>

**Half Yearly Exam Syllabus
CLASS XI (Session 2023-24)**

<u>S.NO</u>	<u>SUBJECT</u>	<u>SYLLABUS</u>	<u>Sign</u>
1	MATHS	<ul style="list-style-type: none"> • Sets • Relations and Functions • Trigonometric Functions • Complex Numbers and Quadratic Equations • Linear Inequalities • Permutations and Combinations • Binomial Theorem • Sequences and Series 	
2	PHYSICS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Units and Measurement 2. Motion in a straight line 3. Motion in a plane 4. Laws of Motion 5. Work , Energy and Power 6. Systems of particles and Rotational motion 	
3	CHEMISTRY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Some basic concepts of Chemistry 2. Structure of atom 3. Periodic classification and properties of elements 4. Chemical bonding and molecular Structure 5. Chemical thermodynamics 6. Redox reactions 	
4	BIOLOGY	<p>Chapter-1: The Living World Chapter-2: Biological Classification Chapter-3: Plant Kingdom Chapter-4: Animal Kingdom Chapter-5: Morphology of Flowering Plants Chapter-6: Anatomy of Flowering Plants Chapter-7: Structural Organisation in Animals Morphology, Anatomy and functions of frog. Chapter-8: Cell-The Unit of Life Chapter-9: Cell Cycle and Cell Division</p>	
5	ECONOMICS	<p>Introduction Consumer 's Equilibrium Demand and Elasticity of Demand Cost. <u>*Statistics*</u> Mean Median Mode.</p>	